Phone: 0124-4200274



UNITED LEASING & INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: Plot No. 66, Sector-34, EHTP, Gurgaon-122001 (Haryana) E-mail id: teamunited83@gmail.com, website: www.ulilltd.com CIN: L17100HR1983PLC033460

The Dy. Manager, BSE Limited, Listing Compliance, 25th Floor, P.J. Towers, Fort, Dalal Street, Mumbai-400001

Ref: Script Code: 507808

Subject: Newspaper advertisement regarding publishing of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2024.

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 and other applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Please find enclosed herewith copies of Advertisements published in Pioneer (English Language newspaper) and Pioneer (Hindi Language Newspaper) on Wednesday 17th day of August, 2024 disclosing the Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2024.

This is for your information and record.

Thanking You,
For United Leasing & Industries Limited

Nishant Tomar

Company Secretary and Compliance Officer

M. No. A67654

Sensex jumps to two-week high

PTI MUMBAI

Benchmark Sensex spurted by 1,330 points to close at a two-week high while Nifty jumped 397 points to settle above the 24,500 level on Friday as easing fears of a recession in the US triggered buying in IT shares amid a sharp global stocks rally. The 30-share BSE Sensex

jumped 1,330.96 points or 1.68 per cent to settle at 80,436.84, marking its best single-day gains in more than two months. During the day, it zoomed 1,412.33 points or 1.78 per cent to 80,518.21.

The NSE Nifty surged 397.40 points or 1.65 per cent to close at a two-week high of

Particulars

(Refer Notes Below)

Net Profit/(Loss) for the period before tax and

Net Profit/(Loss) for the period before tax after

Net Profit/(Loss) for the period after tax

Total Income from Operations

Total Comprehensive Income

Paid-up equity share capital

Earning Per Share of Rs.10/- each

exceptional items

exceptional items

(not annualised)

a) Basic

b) Diluted



Quarter Ended

30.06.2024 31.06.2024 30.06.2024

[2]

(24.31)

(24.31)

300.00

(0.81)

ANIL KUMAR KHANNA, Managing Director, DIN: 0020783

24,541.15. As many as 47 Nifty shares closed in green while three closed in red From Sensex firms, Tech

UNITED LEASING & INDUSTRIES LIMITED

Regd.Office: Plot No.66, Sector-34, EHTP, Gurugram, Harvana-122001.

CIN:L17100HR1983PLC033460, Website:www.ulilltd.com,

Email id: investorrelations@ulilltd.com, Phone:011-26253522

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2024

[Unaudited]

10.63

10.63

300.00

0.35

0.35

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2024

filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations,

2015. The full format of the Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2024 are available on

the Bombay Stock Exchange website www.bseindia.com and on Company's website www.ulilltd.com.

Mahindra, Tata Motors, UltraTech Cement, Consultancy Services, HCL

[3]

124.41

38.56

13.79

300.00

0.46

For United Leasing & Industries Limited

Current year

ended 31st

March 2024

[Audited]

[4]

726.18

8.39

8.39

8.39

300.00

0.28

0.28

Technologies, ICICI Bank and Tata Steel were the biggest gainers. Sun Pharma emerged as the

only laggard.

"The stability of the Japanese Yen has been instrumental in driving a global market recovery. Besides that, the strong US retail sales and a decline in weekly jobless claims have helped alleviate fears of a US recession.

Further, the market sentiment has improved due to a decrease in US CPI inflation. On the backdrop of these, the Indian IT firms exhibited strong buying interest," said Vinod Nair, Head of Research, Geojit Financial Services.

In Asian markets, Seoul, Tokyo, Shanghai and Hong Kong settled significantly higher. European markets were

trading mostly in the green. The US markets ended with sharp gains on Thursday. "The Indian frontline indices

traded significantly higher today, mirroring the positive global market sentiment. The gains in the market were broad-based as the midcap and smallcap indices also moved higher. This upbeat market mood was primarily driven by volatility, which reduced stemmed from increased expectations of a US rate cut in September," Avdhut Bagkar, Technical and Derivatives

In the broader market, the BSE midcap gauge jumped 1.80 per cent and smallcap index climbed 1.70 per cent.

Analyst, StoxBox, said.

All indices ended higher. IT index soared 2.72 per cent and realty jumped 2.45 per cent. Teck (2.23 per cent), auto (1.90 per cent), commodities (1.89 per cent), power (1.80 per cent), financial services (1.77 per cent) and consumer discretionary (1.74 per cent) also closed higher. A total of 2,462 stocks

advanced while 1,467 declined and 107 remained unchanged on the BSE.

On the weekly front, the BSE benchmark jumped 730.93 points or 0.91 per cent, the Nifty climbed 173.65 points or 0.71 per cent. Foreign institutional investors

(FIIs) offloaded equities worth Rs 2,595.27 crore on Wednesday, while domestic institutional investors (DIIs) were buyers as they bought equities worth Rs 2,236.21 crore, according to exchange

FDI in food processing sector down 30 per cent to ₹5,037 cr in 2023-24

PTI ■ NEW DELHI

official data. The FDI in the food processing

sector stood at Rs 7,194.13 crore in 2022-23.

According to the data presented by the Food Processing Industries Ministry in Lok Sabha, the FDI in food processing sector stood at Rs 5,290.27 crore in 2021-22 and Rs 2934.12 crore in 2020-21. FDI was Rs 6,414.67 crore in 2019-20; Rs 4430.44 crore in

2018-19; Rs 5,835.62 crore in 2017-18; Rs 4,865.85 crore in 2016-17; and Rs 3,312 crore in 2015-16 in the food processing In order to enhance foreign

investment in the food processing sector, the ministry has taken various measures, including 100 per cent FDI permitted through automatic route for the food processing sector subject to sectoral regulations.

under the government- retail outlet, and to help in proapproval route, for trading viding better returns to farmincluding through e-commerce, in respect of food products manufactured or produced in India. The government has exempted export of processed foods.

all processed food items from the purview of licensing under Foreign direct investment the Industries (Development (FDI) in India's food pro- and Regulation) Act, 1951. cessing sector declined 30 per There is a lower GST for raw cent in the last fiscal to Rs and processed products. More 5,037.06 crore, according to than 71.7 per cent of food products under various chapter heads/sub-heads are covered in lower tax slabs of 0 per

> cent and 5 per cent. The export of processed foods declined 17 per cent to USD 10,881.81 million in 2023-24 from USD 13,078.3 million in the preceding fiscal.

> For the development of this sector, the ministry is implementing the Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana (PMKSY) and Production Linked Incentive Scheme for Food Processing Industry (PLISFPI) and Prime Minister Formalization of Micro Food Processing

(PMFME) schemes. All these three schemes are demand-driven and implemented across the country. These schemes are aimed at creation of modern infrastructure with efficient supply chain It has allowed 100 per cent FDI, management from farm gate to ers, creation of employment opportunities, reducing

wastage, increasing the pro-

cessing level and enhancing the

MANIBHAVNAM HOME FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED

REGISTERED OFFICE

Farm No. 10, Tropical Drive, Ghitorni, M.G Road, New Delhi -110030 Mob-9310100001. Email: customercare@manibhavnam.com

PUBLIC NOTICE

This is to inform the public in general, and the customers in particular, that the management of the Company has decided to close the following branch:

Manibhavnam Home Finance India Private Limited Ground Floor, Prem Niwas Guest House, Nayapura, **Current Address** Osian, The Osian, Distt. Jodhpur, Rajasthan **Contact Details** +919910705878 vipin.gupta@manibhavnam.com of Closing Branch **Tentative Date** 25th November, 2024 of Closing

It is clarified that due care is being taken by the Company to ensure that no inconvenience whatsoever is caused to the Company's customers during the process of closing. The loan accounts of all the valued customers shall continue with another branch from new address (i.e., KHASRA NO-1588/2, V/P- OSIAN, GROUND FLOOR, NEW BUSSTAND ROAD, NEAR HERITAGE SAFA HOUSE, TEH-OSIAN, DIST-JODHPUR, RJASTHAN Customers are hereby requested to kindly take note of the aforesaid change, which will be effective tentatively from 25th November 2024.

In case any further clarification is required and/or in case of any difficulty, the customer may contact the officials of Manibhavnam Home Finance India Private Limited

Contact: - +91 9910705878, Mr. Vipin Gupta

Date: 11th August 2024

ATS INFRABUILD PRIVATE LIMITED

CIN: U45400DL2007PTC168922 ANNEXURE I

[Regulation 52 (8), read with Regulation 52 (4), of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

	(Amounts in INR Lakhs, unless of					
S. No.	Particulars	For the Qua	For the Year ended			
		30.06.2024	30.06.2023	31.03.2024		
		Unaudited	Unaudited	Audited		
1	Total Income from Operations	17.49	402.64	1,079.02		
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	(35.00)	(95.06)	(1,427.70)		
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(35.00)	(95.06)	(1,427.70)		
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(36.74)	(95.25)	(1,778.97)		
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(36.74)	(95.25)	(1,782.57)		
6	Paid up Equity Share Capital	1.00	1.00	1.00		
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	(4,099.34)	(2,375.28)	(4,062.60)		
8	Net worth	(4,098.34)	(2,374.28)	(4,061.60)		
9	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	20,769.55	16,156.23	16,425.32		
10	Outstanding Redeemable Preference Shares	=		-		
11	Debt Equity Ratio *	(0.59)	(6.80)	(4.04)		
	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -		A)			
12	1. Basic: (in Rs)	(367.43)	(952.53)	(17,789.69)		
	2. Diluted: (in Rs)	(367.43)	(952.53)	(17,789.69)		
13	Capital Redemption Reserve	15 7 5,				
14	Debenture Redemption Reserve		-	(0.60)		
15	Debt Service Coverage Ratio *	(0.01)	(0.01)	(0.09)		
16	Interest Service Coverage Ratio *		(0.26)	(18.53)		
17	Current Ratio	0.85	0.91	0.85		
18	Long Term Debt to Working Capital Ratio	1-	(0.25)	-		
19	Bad Debt to Accounts Receivable Ratio	(4)	-	-		
20	Current Liability Ratio	1.00	0.97	1.00		
21	Total Debt to Total Asset Ratio	0.05	0.35	0.05		
22	Debtor Turnover Ratio	17	7.92	12.67		
23	Inventory Turnover Ratio	:=:	0.01	0.05		
24	Operating Margin	0.00%	-32.43%	-165.89%		
25	Net Profit Margin	-210.09%	-23.66%	-164.87%		

Date: 14/08/2024

- a) The above is an extract of the detailed format of quaterly/annual financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quaterly/annual financial results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity.
- For the items referred in sub-clauses (a), (b), (d) and (e) of the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange(s).

- Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with

- Ind AS Rules / AS Rules, whichever is applicable. - The pertinent items need to be disclosed if the said disclosure is required as per Regulation 52 (4) of the
- SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- e) Previous periods figures have been reclassified wherever considered necessary.

For and on behalf of the Board of Directors of ATS Infrabuild Private Limited

SD/-Kashinath Jha Director DIN-09834435

Santosh Kumar Director DIN-09835334

ATS HEIGHTS PRIVATE LIMITED (Under CIRP)

Regd. Off.: 711/92, Deepali, Nehru Place, New Delhi - 110019 CIN: U70200DL2010PTC205410; Phone No.: 0120-7111500; Fax No.: 0120-7111550 Email Id.: compliances@atsgreens.com; Website: www.atsgreens.com **ANNEXURE I**

Format for publishing financial results in newspapers [Regulation 52 (8), read with Regulation 52 (4), of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

(Amounts in INR Lakhs, unless otherwise stated)

	(Amounts in the Earlis, amoss otherwise state					
S. No.	Particulars	For the Quarter Ended	For the Quarter Ended	For the Year ended		
		30.06.2024	30.06.2023	31.03.2024		
		Unaudited	Unaudited	Audited		
1	Total Income from Operations	0.20	2.50	4.26		
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	(1.50)	(20.22)	(49.47)		
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(1.50)	(20.22)	(49.47)		
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(1.56)	(10.53)	(527.83)		
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(1.56)	(10.53)	(527.83)		
6	Paid up Equity Share Capital	1.00	1.00	1.00		
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	(3,269.14)	(2,750.28)	(3,267.57)		
8	Securities Premium Account			-		
9	Net worth	(3,268.14)	(2,749.28)	(3,266.57)		
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	2,40,326.86	1,92,152.85	2,33,446.74		
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	ā	-	_		
12	Debt Equity Ratio	(73.54)	(69.89)	(71.47)		
	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -					
13	1. Basic:	(15.65)	(105.37)	(5,278.33)		
	2. Diluted:	(15.65)	(105.37)	(5,278.33)		
14	Capital Redemption Reserve	-		-		
15	Debenture Redemption Reserve	-	18.	F.		
16	Debt Service Coverage Ratio	(0.0000)	(0.002)	(0.0002)		
17	Interest Service Coverage Ratio	120	(0.014)	(1.180)		
Note:		·				

Place: Noida

Date: 14/08/2024

- a) The above is an extract of the detailed format of quarterly/annual financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly/annual financial results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity.
- b) For the other line items referred in the Regulation 52 (4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange(s).
- c) # Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.

Kashinath Jha Director

SD/-Santosh Kumar Director

Gaurav Katiyar Interim Resolution Professional Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00209/2017-18/10409

किसानों को ५२५ करोड़ रुपये का बोनस जारी

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चंडीगढ़ से की शुरुआत, प्रदेश के आठ जिलों में खुलेंगे पशु चिकित्सा पॉलीक्लीनिक

🗕 तीन लाख २० हजार सालाना आय वाले दूध विक्रेताओं का होगा बीमा

शिखा शर्मा । चंडीगढ़

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए किसानों को दो हजार रुपये प्रति एकड की दर से बोनस जारी किया है। इस संबंध में सरकार ने हालही में मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया था। जिसे शुक्रवार को सिरे चढाते हुए पांच लाख 20 हजार किसानों को पहली किश्त जारी कर दी गई है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस बार प्रदेश में बारिश कम हुई है। जिस कारण किसानों का काफी नुकसान हुआ है। इसे देखते हुए सरकार ने



हालही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दो हजार रुपये प्रति एकड् की दर से बोनस देने का फैसला किया था। जिसके चलते आज पांच लाख 20 हजार किसानों के खाते में दो हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से 525 करोड़ रुपये डाले गए हैं। अगले एक से दो दिन के भीतर यह पैसा किसानों के खाते में पहंच जाएगा।

मुख्यमंत्री ने पशुपालकों को बडी राहत देते हुए कहा कि प्रदेश के 14 चिकित्सा

अब राज्य के शेष 8 जिले हैं उनमें भी ये पश् चिकित्सा पॉली क्लीनिक खोले जाएंगे। इनमें सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी। इसमें एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधाएं होंगी। जिन आठ जिलों में पशु चिकित्सा पालीक्लिनक खोले जाएंगे,उनमें पंचकूला, कैथल, करनाल, हिसार, झज्जर, गुरुग्राम, यमुनानगर शामिल हैं।

सीएम ने दूध उत्पादकों तथा दूध

विक्रेताओं को बड़ी राहत देते हुए कहा कि घरों तक दूध सप्लाई करने वालों दुधियों का सरकार बीमा कराएगी। प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत सभी दुग्ध वितरकों (दूधिया) को कवर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऐसे दूध विक्रेता जिनकी वार्षिक आय 3.20 लाख है उन्हें राज्य की दयालु योजना के तहत जोड़ा

कोलकाता घटना पर सरकार सतर्क, मांगी रिपोर्ट

चंडीगढ़। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दुष्कर्म की घटना के बाद हरियाणा सरकार सतर्क हो गई है। प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी मेडिकल कॉलेजों से सरक्षा को लेकर रिपोर्ट तलब कर ली है। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी निर्देश में कहा गया है कि दो दिन के भीतर यह रिपोर्ट मुख्यालय में भेजनी होगी। मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ.सुमिता मिश्रा की और से जारी किए आदेश में कहा गया है कि मेडिकल कॉलेजों में पढ़ रहे डॉक्टरों, छात्रों और नर्सों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हरियाणा में 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज और 5 निजी मेडिकल कॉलेज हैं। पिछले 9 सालों में एमबीबीएस की सीटें 700 से बढ़कर जहां 2185 हो गई हैं, वहीं पीजी (स्नातकोत्तर) की सीटें 289 से बढकर 851 हो गई हैं। कोलकाता में हए घटनाक्रम के बाद भेजे गए पत्र में सिक्योरिटी, सीसीटीवी और ट्रांसपोटेशन के बारे में जानकारी मांगी गई है। रिपोर्ट में हॉस्टल सुविधा को लेकर भी विस्तृत जानकारी भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान अंत्योदय परिवारों के सदस्यों की प्रोत्साहन राशि 5 रुपए प्रति लीटर से

विधानसभा क्षेत्रों से टिकट मांगे हैं।

ने फरीदाबाद एनआईटी, पुन्हाना और

नांगल चौधरी विधानसभा सीटों से

टिकट की दावेदारी की है। सिरसा के

पर्व सांसद डा. सशील इंदौरा ने

बवानीखेडा, नरवाना और रतिया

विधानसभा सीटों से टिकट मांगे हैं।

हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक

कमेटी के अध्यक्ष रह चुके स.

जगदीश सिंह झींडा ने असंध से

चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है,

जबिक पूर्व डिप्टी सीएम चंद्र मोहन

और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल के

बेटे मनीष बंसल ने पंचकूला से

टिकट मांगे हैं। हिसार के पूर्व सांसद

बृजेंद्र सिंह ने उचाना से और जजपा

के मौजूदा विधायक रामकरण काला

ने शाहबाद से कांग्रेस के टिकट के

लिए आवेदन किए हैं। दादरी के

निर्दलीय विधायक सोमबीर सांगवान

और तोशाम से अनिरुद्ध चौधरी ने

पर्व सांसद अवतार सिंह भडाना

बढाकर 10 रुपए कर दी गई है। इसी योजना के तहत पिछले साल 39 करोड़ रुपए की राशि भेजी थी, इस बार इस योजना के तहत 100 करोड़

केंद्र को पसंद आई हरियाणा की लैंड बैंक पॉलिसी

🛡 प्रधानमंत्री ने लाल किले से किया राज्यों को लैंड बैंक बनाने का आह्वान

🗕 पूर्व सीएम ने किसानों के विवादों का समाधान करते हुए बनाई थी पॉलिसी

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किसानों के भूमि विवादों के समाधान की लैंड बैंक पॉलिसी की अनोखी पहल का देशभर में डंका बज रहा है। यही नहीं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल की नीतियों के कायल हैं। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए लैंड बैंक बनाने का

दरअसल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में किसानों के विवादों का समाधान करने और सीएलयू माफिया के खात्मे के कदम उठाए थे, जो न केवल कारगर साबित हुए बल्कि किसानों को भ्-माफियाओं से छटकारा भी मिला।

मनोहर लाल की लैंड बैंक पालिसी से शहरों में नए सेक्टर बनाने, वाणिज्यिक, संस्थागत और ढांचागत विकास के साथ ही औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने में मदद मिली। परियोजनाओं के लिए भू-मालिक को पोर्टल पर खुद जमीन देने की पेशकश करने का ऑफर

किसानों की समृद्धता का भी किया जिक्र बतौर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश

के किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। मनोहर के इस कदम से न केवल किसानों के आर्थिक नुकसान की भरपाई करने में भी मददगार बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में क्षमता को बढाने और कौशल मिशन पर जोर दिया। यह दोनों योजनाएं मनोहर लाल की देन हैं। मनोहर लाल के शासनकाल में 14 फसलें एमएसर्प पर खरीदी जाती थी, अब हरियाणा में सभी 24 फसलें खरीदी जाएंगी।

दिया गया। इससे शहरीकरण और औद्योगीकरण के लिए लैंड बैंक बनाने में मदद मिली और नई परियोजनाएं भूमि की कमी के चलते नहीं अटकी। लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने राज्यों को विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए लैंड बैंक (भूमि बैंक) बनाने का आह्वान किया।

हुड्डा के क्षेत्र से किसी कांग्रेसी ने नहीं मांगा टिकट

🛡 आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वालों की भरमार

🔵 शाहाबाद से जजपा विधायक ने मांगा कांग्रेस का टिकट

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़

हरियाणा कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव लडने के चाहवानों से आवेदन मांगने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद सभी 90 विधानसभा हलकों से 2556 नेताओं ने आवेदन किया है। इनमें से केवल 90 को ही विधानसभा का टिकट दिया जाएगा जबकि 2466 को चुनाव के दौरान संभाल कर रखना पार्टी के लिए किसी बड़ी टेंशन पुरुष आवेदक 2140

गुटबाजी चरम पर है। ऐसे में जिनको टिकट नहीं मिलेगी उनके पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के साथ चलने को लेकर अभी से संशय पैदा हो गया है।

दलित बाहुल्य सीटों पर चुनाव लडने के लिए कांग्रेस में मारामारी है। सामान्य सीटों पर जहां पांच से 40 तक दावेदारों ने टिकट मांगे हैं, वहीं आरक्षित विधानसभा सीटों पर अधिकतम 88 कांग्रेसियों ने टिकट की दावेदारी जताई है। रोहतक जिले गढ़ी सांपला किलोई एकमात्र ऐसी विधानसभा सीट पर जिस पर सिर्फ एक आवेदन आया है और वह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आवेदन है। कुरुक्षेत्र की सांसद रह चुकी प्रो. कैलाशो सैनी एक मात्र ऐसी महिला नेत्री हैं जिन्होंने

कांग्रेस कमेटी को इस

तरह ामल ३	विदन
विधानसभा क्षेत्र	आवेदक
शाहबाद विस	56,
नीलोखेड़ी विस	88,
जुलाना विस	86,
उकलाना विस	57,
बरवाला विस	55,
बाढड़ा विस	60,
बवानीखेड़ा विस	78,
कलानौर विस	55,
बावल विस	52
सोहना विस	54
रेवाड़ी विस	पांच
होडल विस	दो
डबवाली विस	चार
गढ़ी सांपला किलोई	एक
नूंह विस	तीन
महेंद्रगढ़ विस	तीन
पलवल विस	तीन
गुगुगागुर गुरी फि	होता और इं

बसपा विस चुनाव के लिए तैयारः मायावती

द्याराम वशिष्ठ। फरीदाबाद

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा कुमारी मायावती ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने वाले आम चुनाव का स्वागत करते हुए कहा बहुजन समाज पार्टी दोनों राज्यों में चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है।

चुनाव आयोग की घोषणा के बाद उन्होंने ट्वीट कर के कहा लोकतंत्र की मजबती के लिए चुनाव अहम भूमिका निभाते हैं। चुनाव से अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाता है, जिससे संविधान हिसाब से राजनैतिक लोकतांत्रिक गतिविधियां जड़ पकड़ सकें। कुमारी मायावती ने कहा हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी का इंडियन नेशनल लोकदल के साथ



कहा जम्म कश्मीर में लंबे इंतजार के बाद चुनाव हो रहे हैं, और यहां बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी।

बहुजन समाज पार्टी के हरियाणा उपाध्यक्ष मनोज चौधरी ने कहा बसपा

सीटों पर बहत ही मजबती के साथ चुनाव लड़ेगा, और गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा हरियाणा की जनता भाजपा के कुशासन से बुरी तरह परेशान है। भाजपा ने केवल झूठ और जमले की सरकार चलाई है।जबिक 10 साल पहले कांग्रेस का राज भी जनता देख चुकी है। कांग्रेस ने भी पहले जनता को केवल उगा है। उन्होंने कहा दोनों ही पार्टियों ने पिछले 20 साल में हरियाणा के गरीब, किसान और मजदूर को केवल धोखा दिया है। श्री चौधरी ने कहा हरियाणा के मतदाताओं के पास बसपा इनेलो गठबंधन मजबत विकल्प के रूप में है। इस चुनाव में सभी मतदाताओं के पास 20 साल का बदला लेने का

मानक टबरा गोगा मेड़ी में तीन दिवसीय मेला १९ से **पंचकला।** रक्षाबंधन पर मानक टबरा गोगा मेडी में 19 अगस्त से तीन दिवसीय वार्षिक मेला शुरू होने जा

रहा है। जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में है। गोगा मेडी समिति प्रधान रवि कुमार ने आज यहां जारी एक जानकारी में बताया कि वार्षिक मेला रक्षाबंधन के दिन 19 अगस्त को शुरू होगा। 20 अगस्त की रात का बसेरा होगा। मेले के तीसरे व अंतिम दिन 21 अगस्त को कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाएगा। इस कुश्ती दंगल में कई नामी पहलवान अपनी प्रतिभा दिखाएंगे वहीं गोगा मेड़ी समिति की तरफ से पहलवानों को सम्मानित भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मेले में आसपास के गांवों के अलावा हरियाणा,पंजाब व हिमाचल से हजारों श्रद्धालु आते हैं। UNITED LEASING & INDUSTRIES LIMITED

एक पेड़ मां के नाम, मुहिम से कुरुक्षेत्र बनेगा ग्रीनः सुधा

पायनियर समाचार सेवा। कुरुक्षेत्र

हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम मुहिम जैसे कार्यक्रमों से ही कुरुक्षेत्र को ग्रीन सिटी की श्रेणी में लाया जा सकता है। इस लक्ष्य को पाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह के नेतृत्व में जिला प्रशासन का एक-एक विभाग एक पेड़ मां के नाम मुहिम के

राज्यमंत्री शुक्रवार को जिला प्रशासन, वन विभाग और पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में पुलिस लाइन में एक पेड मां के नाम पौधरोपण कार्यक्रम में पत्रकारों से बात कर रहे थे। इससे पहले राज्य मंत्री सुभाष सुधा, उपायुक्त सुशील

पूर्व वाइस एडिमरल ने पंचकृला आशियाना चिल्डन होम में किया ध्वजारोहण

पंचकुला। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्थानीय सेक्टर-16 स्थित आशियाना चिल्ड्न होम्स में आयोजित समारोह में वाइस एडमिरल एवीएसएम, वीएसएम, (सेवानिवृत्त) ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लेकर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों को भारतीय नौसेना में रोमांचक करियर के बारे में बताया। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वह एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी), ऑब्जर्वर, कानून, लॉजिस्टिक्स, शिक्षा और जलयान आर्किटेक्कर जैसे क्षेत्रों में प्रवेश कर सकते हैं। उन्होंने 7500 किलोमीटर तक फैले हमारे विशाल समुद्र तट की सुरक्षा में भारतीय नौसेना के महत्व के बारे में बताया। श्रीमती कमल माही ने बच्चों और महिलाओं के उत्थान में सराहनीय कार्य करने के लिए टीम आशी की

इस अवसर पर बोलते हुए एसोसिएशन फॉर सोशल हेल्थ इन इंडिया (आशी) हरियाणा की अध्यक्ष डॉ.विभा तलुजा ने उन विभिन्न परियोजनाओं के बारे में बताया जिन पर संगठन काम कर रहा है। आशी महासचिव सुश्री किरण गांधी ने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया।

वैशाली शर्मा, एसडीएम सुरेंद्र पाल, नगराधीश डा. रमन गुप्ता, डीएसपी

कि विकास एवं पंचायत विभाग और जिला परिषद के अधिकारियों-सहयोग लेकर 403 गांवों में 15 रोपित कर लिए थे।

THE PIONEER (1

CHANGE OF NAME

NO-B2/419, PD(684)C

alias Sabina Khatun D/o Mohmad Hussain W/o MD Akhlakur Rahman employed as LMA in CGHS Ministry of Health and family welfare R/o RZ-141/253, Gali No .2, Masjid Road, West Sagarpur, South west Delhi-110046 have changed my name and shall

PD(685)C

all future purpose.

ओमप्रकाश, फॉरेस्ट रेंजर शमशेर सिंह अतिरिक्त डीएफओ मोहन लाल वर्मा ने पुलिस लाईन में पौधारोपण उपायुक्त सुशील सारवान ने कहा

अगस्त तक 90 हजार से ज्यादा पौधे

I, Vijay Singh Monhas S/o Puran Singh Monhas R/o Flat Tower-16, Purvanchal, Silver City-2, PI-II, Grater Noida, Distt-Gautam Budh Nager, UP-201306 have changed my name from Vijay Singh Manhas to Vijay Singh Monhas for all future purpose.

I, hither to known as Sabeena hereafter be known as Sabeena.

I, Rekha Meena D/o Ram Charan Meena Employed as

IPS Officer Traince 76 RR(2023 Batch) as SVP National Police academy Hyderabad R/o A-17 Flat No. 302 Viswa Karma Colony Pool Prahalad Pur New Delhi-110044 have change my name to Rekha R Nanglot for

PD(686)C

विस चुनाव के बाद होंगे सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी चुनाव लगभग पुरी हैं। मार्च माह के दौरान

सरकार ने बनाई ४१ सदस्यों की पबंधन समिति

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ्

हरियाणा में कई माह से लंबित हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के चुनाव अब विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे। प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए एडहाक गुरुद्वारों के रखरखाव, प्रबंधन और बाकी सेवा कार्यों को अंजाम दे रही है। एचएसजीपीसी के चुनाव के लिए गुरुद्वारा चुनाव आयोग की तैयारियां

एक बार चुनाव कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया था। अब विधानसभा चुनाव की घोषणा किसी भी समय होने के कारण एचएसजीपीसी के चनाव टाल दिए गए हैं। यह चनाव अगली सरकार के गठन के बाद ही होने की संभावना है। हरियाणा के गृह सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना में 41 नये सदस्यों की कमेटी में 41 नये सदस्यों की में शामिल होकर सेवा प्रबंधन का नियुक्तियां कर दी हैं। एचएसजीपीसी कार्य देखेंगे। कमेटी में अंबाला जिले चनाव होने तक एडहॉक कमेटी से हरपाल सिंह कांबोज, सदर्शन सिंह सहगल, तलविंदरपाल सिंह, इंद्रजीत सिंह वासुदेवा, कैप्टन दिलबाग सिंह सैनी और राजेंद्र सिंह को शामिल किया गया है।

सार्वजिनिक सूचना : मुविक्तल श्री इंदर कुमार नागपाल पुत्र श्री रामजी दार गपाल और श्रीमती वाणी नागपाल पत्नी श्री इंदर कुमार गपाल, गुरुग्राम के पालम विहार नामक आवासीय कॉलोने ारानीय, पुरक्षा प्रस्ति विकास कार्या जाता क्या प्राप्ता क्या कार्या है। अंबारानीय मुर्चेड नंबर 1347, ब्लॉक नंबर बी, क्षेत्रफल 304 में मीटर के तृतीय तल के मालिक हैं। जो प्राम चौमा, तहसील ग्रैर जिला गुरुग्राम (हरियाणा) में स्थित है, जो पंजीकृत त्यार रेलेख दिनाक 17.02.2021 के माध्यम से श्रीमती उंचा यादर विराख विनाम 71,02,2021 के मध्यम से आमता उन्ना याद र पट्नी औं शिव दिहे यादव द्वारा औं इंदर कूमर नागपाल पुत्र श्रें रामजी दास नागपाल और श्रीमती वाणी नागपाल पद्नी श्रें इंदर कुमार नागपाल क्षार श्रीमती वाणी नागपाल पद्नी श्री 60033, 84-गुनाव हिरोयाण हैं। एवरपेशत संविति को पेड वैंत फाइरोष्टियल सर्विसेज लिमिटेड के पास गिरवी होने जा रही है काइनाश्चयल लावस्त्रजा लामग्टड के यास गंपरती हान जा रही हैं यदि किसी व्यक्ति, र्बेक / दिनीय संस्थान के पास उपयोक्त संपत्ति के संबंध में कोई दावा/अधिकार, ग्रहणाधिकार, को आपित हैं, तो उसे क्योद्दासाइगें/ अधिकात, विशाल मेंडन ई—713, कडकडडूमा कोर्ट, दिस्ती—110002 को इस सूचना वें धकाशम की दिनाक से 7 दिनों के मीतर पंजीकृत पत्ते के तहर स्त्रतावीजी सामग्र के साथ सूचित तथा जाना वातिए। ऐसा ग करने पर किसी भी दावे, ग्रहणाधिकार या आपित को माफ क

Name

Current Address

Contact Details

Tentative Date

of Closing

of Closing Branch

Public Notice Tavar is the owner Land area measuring 282 6 54, vds. out of Khasra no. 172 situated at village Bhudha, Pargana & tehsil Dadri, Distt. Gautam Budh. Nagar, U.P. through Gift Deed dated 29.05.2024 doc. No. 5882 executed by Mr. Ravinder Tavar in favour of Mr. Ajay Tavar in respect of Said Property.

Mr. Ajay Tavar is in the process of mortgaging the said Shriram Housing Finance Ltd. Any objections or concerns regarding this transaction should be raised within a period of 07 days from the date of this public notice. Any objections

should be raised within a period of 07 days from the date of this public notice. Any objections submitted after the completion of this 07-day period will not be considered binding with respect to the said property or the interests of our client. If anyone wishes to raise an objection, please do so within the stipulated 07-days period by contacting Law Veritas: North (Advocates & Legal Consultants) at Office No. 11, 1st Floor, Building No. A-44l/A, Sector-16, Noida, Uttar Pradosh-201301; Landline(s): +910120-3101683, e-mail: accounts@lvnorth.in

MANIBHAVNAM HOME FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED

REGISTERED OFFICE

Farm No. 10, Tropical Drive, Ghitorni, M.G Road, New Delhi -110030

Mob-9310100001. Email: customercare@manibhavnam.com

PUBLIC NOTICE

भी एक अनुपम सेवा होगी। Second Floor with Terrace/roof over and abundanty importly bearing No. G-1290, area measuring 160 sr yds. situated at Chitaranjian Park, New Deihi-11001 through Reof, Partillion Deud dated 1103 2016 a doc. No. 2013 executed between Mr. Tapan Bhownii (owner of Entire First Floor, Entire Second Floor will terrace/root over and above of Property bearing No. G Terrace/roof over and above of Property bearing No. 6 1290, area measuring 160 sq. vds.) (first part) and (1 Mrs. Krishna Majumdar,(2) Mrs. Ajita Majumdar, (3 Mrs. Roma K. Kumar (through her attorney of brother Mr. Tapan Bhowmik) and (4) Mrs. Sumit Bhowmik Slevin (through her attorney her Sister Mrs. Vicebna Meisundar) (vuenes of Entire, Ground Eloo Bhowmik Slevin (through her attorney her Sister Mrs. Krishna Majumdar), (owners of Entire Sround Floor without terrace rights of Property bearing No. G-1290, area measuring 160 sq. yds.) (Second Party). The above-said owner has misplaced the 1) Original Convoyance Deed dated 17.05.2014 as Doc No. 4439 executed by The POI in favour of Mr. Tapan Bhowmik, Mrs. Krishna Majumdar, Mrs. Ajitt Majumdar, Mrs. Roma K. Kumar (through SPA Mr. Tapan Bhowmik) and Mrs. Sumita Bhowmik Self-through SPA Mrs. Krishna Majumdar all activated (through SPA Mrs. Krishna Majumdar).

I apain enrowmik) and Mrs. Sumilla Bilowink Stev (through SPAMrs. Krishna Majumdan) all legal hires Late Mr. S.C.Bhowmik in respect of Entire property. Fil No. 2033495/2024, also registered at P.S. Crim Branch, Delhi on dated 16.08.2024. Anyone who find the above-mentioned documents, kindly handover the

the above-mentioned documents, kindly handover the same to the Manager of Bajaj Housing Finano Limited, Ghaziabad. Mr. Tapan Bhowmik is in the process of mortgagin the seld Bajaj Housing Finance Limited. An objections or concerns regarding this transaction should be raised within a period of 07 days from th date of this public notice. Any objections submitted afte the completion of this 07-day period will not be considered binding with respect to the said property of the interests four client.

pue nucests orcur client.
If anyone wishes to rates an objection, please do s
within the stipulated 07-days period by contacting Lat
Veritas: North (Advocates & Legal Consultants) a
Office No. 11, 1st Floor, Building No. A-44//
Sector-16, Noida, Uttar Pradesh-201301
Landline(s): +910120-3101683, e-mail
accounts@vnorth.in

Regd.Office : Plot No.66, Sector-34, EHTP, Gurugram, Haryana-122001 CIN:L17100HR1983PLC033460, Website:www.ulilltd.com,

Email id: investorrelations@ulilltd.com, Phone:011-26253522 Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2024

SI. No.	r ai ticulai s		Guireiit year		
	(Refer Notes Below)	30.06.2024	31.06.2024	30.06.2024	ended 31st March 2024
		[Unaudited] [1]	[Unaudited] [2]	[Unaudited] [3]	[Audited] [4]
1	Total Income from Operations	154.57	198.67	124.41	726.18
2	Net Profit/(Loss) for the period before tax and exceptional items	10.63	(24.31)	38.56	8.39
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax after exceptional items	10.63	(24.31)	13.79	8.39
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax	10.63	(24.31)	13.79	8.39
5	Total Comprehensive Income		-	-	-
6	Paid-up equity share capital	300.00	300.00	300.00	300.00
7	Earning Per Share of Rs.10/- each (not annualised)				
8	a) Basic	0.35	(0.81)	0.46	0.28
	b) Diluted	0.35	(0.81)	0.46	0.28
Note	s:	-			•

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2024 are available on the Bombay Stock Exchange website www.bseindia.com and on Company's website www.ulilltd.com.

For United Leasing & Industries Limited

ANIL KUMAR KHANNA, Managing Director, DIN: 0020783

RLF LIMITED

Reg. Office:14 KMS, Gurgaon Pataudi Road, Village Jhund Sarai Veeran, Distt. Gurgaon Haryana-122001 Corporate Office: D-41, South Extension-II, New Delhi-110049. CIN NO. L74999HR1979PLC032747, Phone: 011-26258237, Email: limitedrif@gmail.com EXTRACT OF STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR

THE QUARTER ENDED ON 30TH JUNE, 2024

Sr.	Particulars	Quarter	Preceding 3	Correspondi	Current
No.		ended 30/06/2024 (3 Months ended) (30-06-2024)	Months ended (31Mar2024)	ng 3 months ended in the	Year ended 31 Mar 2024
		Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Audited
1	Total Income from Operations	24.77	5.41	-	186.36
2	Net Profit for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	4.02	(15.32)	(5.37)	6.47
3	Net Profit before tax for the period (after Exceptional and/or Extraordinary items)	4.02	(17.33)		4.46
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	4.02	(17.33)		4.46
5	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after Tax)	-	(2)	2	2
6	Equity Shares Capital (Face value Rs. 10/- Per equity share)	980.08	980.08	980.08	980.08
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited balance sheet of previ- ous accounting year	-	(**)		-
8	Earnings Per Share of Rs. 10/- each (for con- tinuing and discontinued Operations) Basic and diluted	0.04	(0.18)	(0.05)	0.051

1. The above Financial Results were reviewed by the Members of Audit Committee and approved by the

. The Company has adopted Indian Accounting Standards (Ind AS) notified by Ministry of Corporate Affairs from 1st April 2017, with a transition date 1st April 2016 and accordingly these financial Result have been

the Schedule III of the Companies Act, 2013.

Place: New Delhi ADITYA KHANNA, MANAGING DIRECTOR, DIN: 1860038

Board of Directors at their respective Meeting held on 14th August, 2024, The Statutory Auditors of the company have carried out a Limited Review of the Financial Results for these financials.

prepared in accordance with the companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and other accounting principles generally accepted in India. Figures for the prior period have been regrouped and / or rearranged wherever considered necessary as per the revised format prescribed by SEBI under SEBI (LODR) Regulations, 2015 and amended as per

Contact: - +91 9910705878, Mr. Vipin Gupta Date: 11th August 2024

This is to inform the public in general, and the customers in particular, that the management of the Company has decided to close the following branch: Manibhavnam Home Finance India Private Limited

> Ground Floor, Prem Niwas Guest House, Nayapura, Osian, The Osian, Distt. Jodhpur, Rajasthan +919910705878

vipin.gupta@manibhavnam.com

25th November, 2024

It is clarified that due care is being taken by the Company to ensure that no inconvenience whatsoever is caused to the Company's customers during the process of closing. The loan accounts of all the valued customers shall continue with another branch from new address (i.e., KHASRA NO-1588/2, V/P- OSIAN, GROUND FLOOR, NEW BUSSTAND ROAD, NEAR HERITAGE SAFA HOUSE, TEH-OSIAN, DIST-JODHPUR, RJASTHAN

effective tentatively from 25th November 2024. In case any further clarification is required and/or in case of any difficulty, the customer may contact the officials of Manibhavnam Home Finance India Private Limited

Customers are hereby requested to kindly take note of the aforesaid change, which will be

Place: Osian

वृक्षों से ही मानवीय जीवन

संरक्षितः सचदेवा **कुरुक्षेत्र।** कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने केयू परिसर में स्वतंत्रता दिवस पर श्रीमदभगवद् गीता के प्रांगण में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरूआत

करते हुए पौधा रोपित किया। उन्होंने

कहा कि वक्षों से ही मानवीय जीवन

संरक्षित है। इसलिए पर्यावरण संतुलन

के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़

लगाने चाहिए। उन्होंने कहा कि कि

जो भी आमजन पेड लगाएंगे, वे

अपनी माता की स्मृति को तो हमेशा

याद रखेंगे ही, यह धरती मां के लिए